

बालभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - चतुर्थ

दिनांक -09 -11 -2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज लिंग के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे।

लिंग से आप क्या समझते हैं?

लिंग का अर्थ है "चिह्न" अथवा "लक्षण"। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं:

1. पुल्लिंग,
2. स्त्रीलिंग

पुल्लिंग

जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के पुरुष-जाति के होने का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे- शेर, घोड़ा, हाथी, नाना, कवि, लेखक, लड़का, पिता, भाई, कुत्ता, आदि।

स्त्रीलिंग

जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव के स्त्री-जाति के होने का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे- शेरनी, मोरनी, कोठरी, तस्वीर, चिट्ठी, गंगा, गाय, लड़की, लता, अलमारी, काँपी आदि।

पुल्लिंग की पहचान

नीचे लिखी संज्ञाएँ सदा पुल्लिंग होती हैं:

1. **पर्वतों के नाम:** हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, आल्पस, अरावली आदि।
2. **फलों के नाम:** आम, सेब, केला, संतरा, अमरूद, अनानास, चीकू आदि।
3. **महीनों के नाम:** सभी भारतीय महीनों के नाम; जैसे- चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन आदि। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवंबर और दिसम्बर।
4. **दिनों के नाम:** सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार।

5. **समय-सूचक नाम:** क्षण, सेकण्ड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, युग आदि।
6. **देशों के नाम:** भारत, नेपाल, भूटान, थाइलेण्ड, पाकिस्तान, चीन, जापान, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, अमेरिका, फ्रांस आदि।
7. **ग्रहों के नाम:** सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, नेपच्यून, प्लूटो आदि (अपवाद-पृथ्वी)
8. **धातुओं के नाम:** सोना, पीतल, ताम्बा, लोहा आदि (अपवाद-चाँदी)
9. **वृक्षों के नाम:** नीम, बरगद, बबूल, आम, अमरूद, अशोक, ताड़ आदि।
10. **अनाजों के नाम:** चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, चना आदि।
11. **द्रव्य पदार्थों के नाम:** तेल, घी, दूध, शर्बत, मक्खन आदि। (अपवाद-कॉफी, चाय आदि)
12. **वर्णमाला के अक्षर:** सभी वर्ण पुल्लिंग हैं। (अपवाद-इ, ई ऋ)